

पाणिग्रहण व भिमरथारोहण विधि क्रिया

अष्टमङ्गलादि गाथानुवादक
श्री पं. दीव्यवज्र वज्राचार्य
मासं गल्लि ये

~~सम्पादक~~

श्री पं. वद्रीरत्न वज्राचार्य
मन्त्रसिद्धि महाविहार
छे महाबौद्ध ये

प्रबन्धक व विचारक
राजा वज्राचार्य
वज्राचार्य अध्ययन मण्डल

प्रकाशक
भाइरत्न वज्राचार्य
भ. पु. सुरत चतुर्षण महाविहार
थी कल्लय भोटाहिदि दगुबाहा ये

★ पिकाहः-

भाइरत्न वजाचार्य
भोटाहिटि, असं ये

★ न्हापांगुः -

१००० दोखिधाः
ने. सं. ११०३ गूलागा पञ्चदान चन्हे

★ सफूया हामा च्वमि

★ थाकूः-

नेपाल प्रिंटिङ्ग प्रेस
असन त्योड, ये



दिवंगत माता मोतिमाया वजूचार्य

जन्म:- १०१३ चिल्लाथ्व ११

निधन:- ११०२ कउलाथ्व ११

भूमिका

नेपाःया नेपाःमितय् याइगु संस्कारय् दशकर्म दया च्वंगु
दु । गधेकि-

गर्भाधान. पुंसवन सीमान्तोपनयन तथा
जाति नामोपनयनं चूडाकरणमेवच ।
व्रतादेश समावर्तौ पाणिग्रहण कर्मच ॥

दशकर्म धयागु गर्भाधान निसै कयाः पाणिग्रहण कर्म तक्क
खः । त्तापां गर्भाधान- मिसापिन्त छकलं छकः जक वाधा तयेगु
धकाः वाधा तथाः व्यंकी । निःकोगु पुंसवन कर्म धकाः प्वाथय् दयाः
निला वा स्वला दतकि याइ । स्वकोगु सीमान्तोपनयन धकाः प्वाथय्
दयाः त्तायां वा च्यालां प्वाथय् दुहा मिसायात याइगु कर्म खः ।
प्यकोगु कर्म खः जातकर्म, एव मचा बुइ धुंकाः याइगु कर्म खः ।
न्याकोगु नामाकर्म, नां छुइगु कर्म खः । ख्कोगु कर्म अन्नप्राशन धकाः
जा नकेगु कर्म खः । त्ताय्कोगु बुसै खाय्गु कर्म खः । च्याकोगु
व्रतादेशन कर्म । गुकोगु समावर्तं गृहस्थारम्भय् प्रवेश जुयेगु व फिकोगु
कर्म पाणि ग्रहण धकाः व्याहा यायेगु कर्म खः, एव कर्मनं थि थि कथं
दु व मध्येनं नेपालय् चलय जुया च्वंगु दिवाह कर्मय् थुगु यज्ञशालाय
मण्डप दय्काः यायेगु एव पाणिग्रहण क्रिया खः । थुलि तक मां
अनुपिसं काय् म्हाय्पिन्त याइगु कर्म खः ।

एव पाणिग्रहण छगु नापं दशकर्मय् आः फुक्कं पिदने धुंकल ।
 एव सफुतिइ पाणिग्रहणया नापं दशकर्मं पिनेयागु विधि काय्
 म्हायेपिसं मां अनुपिन्त यायेगु जंक्व क्रियानं दुय्याना च्वंगु दु । ज्याथ
 जिथी जंक्व स्वकः तक्क यायेगुलिइ भिमरथ क्रिया दक्कय् ह्लापांगु,
 काय् म्हाय्पिसं यायेगु कर्म खः । निकोगु देवरथ क्रिया, एव
 छय्पिसं अजा अजिपिन्त यायेगु कर्म खः । स्वकोगु महारथ क्रिया
 छुइपिसं तापाअजा तापाअजिपिन्त यायेगु कर्म खः ।

एव स्वंगू कर्मय् कथःथें ग्रहमातृका, बसुन्धरा, उष्णीषविजयेया
 मण्डल च्वयाः उपासना यायेमाः । एव पूजायानागुलि कथःथें ग्रह
 शान्ति, लक्ष्मी साधन, आयु साधन जुया वइगु खः । एव स्वको
 जंक्व यायेगुया दसि थथे- जंक्व यायेगु खास बौद्ध धर्मया वज्रयान
 मथानुसारं खः, अथेसांनं स्थवीर वादिपिसंनं मेगुहे कथं ज्याथ जिथी
 जक्व धकाः गनं गनं यानाहःगु खनेदु एव सापहे वज्रयानय् बांलाःगु
 खे खः । अथेतुं दश कर्मय्गनं गनं गनं गृहस्थाश्रम त्वते धुंकूपिस
 बाधा तयेगु व ई यायेगु याना ह्वा च्वगु दु एव छगु विचाः थाये
 बहःगु खे खः ।

एव सफुतिइ अष्टमङ्गलादि गाथायात नेपाल भाटां हीका
 बिज्याःह्य श्री पं. दिव्यवज्र वज्राचार्यजुयान आपाल घन्यवाद एव
 सफू जि गुलुपं जक तयाबियागु खः थुके माक्व स्वयाः सफू विचाः
 याःह्य गिप्य राजा वज्रःचार्ययात बबबित जुयेमा घयागु
 आशिर्वाद दु ।

एव सफू व्वयूत ग्वहालि कयागु सफूतः-- १) क्रिया संग्रह
 २) क्रिना समुच्चय ३) नेम सूत्र पाराजिका ४) मञ्जुध्री पाराजिका
 ५) ग्रहमातृका पाठ ६) बसुन्धरा कल्प ७) उष्णीष विजये धारणि
 ८) प्रतिष्ठ कर्मया विधान ९) ज्याथाजिथी जंक्व १०) ज्याथा

जिथी जंक्व बिधि, मूवाहाःया वन वज्राचार्ययागु ११) ग्रह यज्ञ
बिधि स्व. पं. अमोघ वज्रयागु १२ ग्रह मण्डल पूजा बिधि, पुतलि
सत्कया पूर्णानन्दबागु १३) पाणिग्रहणया बिधि, तक्ष वाहाःबा
चिनिकाजीयागु व १४) ज्याथा जिथी जंक्व बिधि, स्व. श्पशंमुनि
यागु करूणामणि दाइयाके कयागु थुलि सफून स्वया स-सःथे स्वयागु
जुल । सफू बियाः ग्बहालि याना बिज्याःपि सकसितं जिगु
आपालं धन्यवाद ।

ध्व सफू पिथना बिज्याःह्य भाहरत्न वज्राचार्यं खः । वसपोलया
दिवगत जुया बिज्याःह्य मांया गुणयात लुमंकाः ध्व पाणिग्रहण व
भिमरथारोहण बिधि क्रिया सफू पिथनाः निशुल्कं मांयाहे नामं
प्रदान याना बिज्याःगु खः ।

वसपोलया मां मोतिमाया वज्राचार्यं जुया जन्म ने. सं. १०१३
चिल्ला ध्व ११ येँ क्वहिंति बहालय् जुल अबु मोहन शाक्य व मां
कान्छीया मुलं जन्म जुया बिज्याःह्य खः । वसपोलया ने. सं. १०३२
ह्येँ खवप देया श्री सुरत चतुवर्णं महाबिहारया वज्राचार्यं जोगरत्न
नाप इहिपाः जूगु खः । अनं लिपा वसपोलपि येँ भोटाहिटिइ क्वं
बिज्यात । वसपोलया स्वह्य काये गुह्य म्हायेपिनि मां जुया बिज्याःह्य
वसपोलयात काये भाइ रत्नजुं स्वकोगु जंक्व महारथ त्रिया तक्कनं
याना बिज्याःगु खः वसपोल छह्य गृह धमंय् तक्कतं उदार चित्तह्य
खः । लिपा वसपोलयात बुरी त्वय् जुजुंहे ने. सं. ११०२ कउलाध्व
एकादशी खुन्हु वसपोल ध्व अनित्य देह त्याग यानाः निधन जुया
बिज्यात । वसपोलयात सुगति सुखावतिइ वास लायेमा धंगु कामनां
हे थुगु सफू पिथना बिज्याःगु जुल ।

-वद्रीरत्न वज्राचार्य
मन्त्रसिद्धि महाबिहार

पाणि ग्रहण

(इहिपाः)

हापा ज्यासने खुन्हु भरी स्वने । थन पाणि ग्रहणया हि खुन्हु हापां अयञ्चं इनाय काय्कः वृक्षये, लँस्वसें दुतकाये । थन भौमचा लँस्वसें दुत काये ।

कथःथे यज्ञ आदि स्वने । अय्चं, इनाय, कलश सधे, मत, नागभौचा, ज्वला हाय्कं, सिद्धमू, पञ्चगव्य, पात्र बलि, जलक्षमी श्रीलक्ष्मी यज्ञया मण्डपस प्यख्ये पं थां स्वाये बखखिपः तये । पञ्चपल्लवः, अष्टमङ्गल, फय्गं घानाः प्यने । थन देय्मास कलश औषधि, व्या, गोलोचन, ईका, सितु, सिद्धः, पलेस्त्रां, शंख, हाय्कं, ताय् थुलि देय्मास स्थापना याये, प्रतिमादि देव स्वने ।

पाणिग्रहण क्रियाविधि माह-

हापां सूर्यार्घं । पूजा संकल्प । गुरु
मण्डल । पञ्चगव्य । सिद्धः तये । लंख वलि ।
समाधि । धन कलश, सर्घं, नागभोंचा, अयञ्चूँ,
इनाय, ज्वला हाय्कं, सिद्धमू, जचलक्ष्मी
श्री लक्ष्मी, अष्टमङ्गलादि सकताँ विधित्थे
पूजा । अग्नि स्थापना, अग्न्याहुति । देवपूजा,
देवताहुति । कायेमचा, भौमचा मण्डपसं
दुतकाये । दिग स्वसें स्वस्ति छवयाव आसं-
खादि लाये । अनं कायेमचा भौमचा निह्यं
नापं फेतुकाः गुरु मण्डल दनके । मतपूजा ।
विसर्जन । पञ्चगव्य बिये । धनंलि भौमचां
देवतापितं ग्वय् तय्के । माक्वसितं ग्वय् बीके ।

अनंलि कायेमचा भौमचा निह्यसितं
छयँनय् स्वां तय्के भावना बाक्व- ओं ततः
स्वहृद् चन्द्रस्थ आः कारजं विभाव्य प्रतिमादि
देवता मुद्रात्मिकां वजूधास्वीश्वरी रूपेण

निष्पाद्य स्वहृदभादूत्सृत्य प्रतिमादेवामपार्श्वे
 पद्मचन्द्रा सनेनिसद्य ॥ ओं वज्रसत्त्व आः ॥
 छयँनय् वज्रं थिये । निराञ्जन, वज्र ताचां त्वये,
 मतफं त्वये ।

अनं आदिवा छयँनय् तय्के । ओं
 दिव्य वाससे स्वाहा ॥ नस्वा लः पञ्चगन्ध
 द्वाफव स्वांनं थुनाः हाहा याये-- ओं सर्व
 तथागत कायविशोधने स्वाहा ॥ थन अंबहामोक्षं
 कलशं लखं स्नानं याके-- यद्वज्रं लाश्य
 वरमालय संगीतं नृत्यं, यत्पुष्पधूपबरदीप
 विचित्रगन्धै पूजाभिरप्रतिसमं, विमलं प्रगीतै
 तत्सङ्गलं भवतुते परमाभिषेकः ॥ एला, लवँ-
 जिफो, कुंकुम, कपू थुलि नचुकाः भौमचाया
 ह्यय् बुके । थन अष्टमङ्गल, कलश औषधि
 तथागु देय्मा थकालिनं दिग स्वयाः काये
 मचायात विये अले व्या जक मिसायात
 विये ।

नमोः सर्व बुद्ध बोधिसत्त्वेभ्य

असमाचलाः समतसार धर्मिण
करुणात्मका जगतिदुःख हरिणः ॥

असमन्त सर्वगुणसिद्धिदायिनो

असमाचलाः समवराग्र धर्मिणः ॥१॥

छलपोलपिनि समान सुं मद्दु, अनुत्पाद स्वभाव जूगुलि
छलपोलपि अचल छः । बुद्धयागु समय (सिद्धान्त) या सार स्वरूपपि
छः । करुणावान जुया बिज्याःगुलि जगतया दुःख हरण याना
बिज्याइपि छः । असमतन्त फुक्क गुण व सिद्धियात बिया बिज्याइपि,
रागादि दोषं रहितपि व अचल जुया बिज्याःपि उचितगु, उत्तमगु व
अग्रगु स्वभाव जुया बिज्याःपि छः ॥१॥

गगन समोपमकता नबिद्यते
गुणालेश रेणुकणिकेऽप्य सीमिके ॥

सदसत्त्व धातुवरसिद्धि दायिषु
विगतो पमेषु असमन्त सिद्धिषु ॥२॥

भाव व अभाव मदु धैगु उत्तमगु सिद्धि बिया विज्याईपि,
उपमा बियाःनं थुडके मर्फीपि, सकभनं सिद्धि दुनं घाये मर्छिपि
छलपोलपिनिगु बिषये । छःपिनिगु गुणया अणु परमाणुया छकूचायनं
गुणयागु सिमा मदु छायेघाःसां गुगु बस्तु आकाश समान खः घका
उपमा बियातल व बस्तु मदयेमाःगुं खः ॥२॥

सतता मला करूणवेगतोत्थिता
प्रणिधानसिद्धिरविरोध धर्मता ॥

जगतोर्थसाधनपरा समन्तीनी

सततंबिरोचति महाकृपात्मनाम् ॥३॥

महा करुणावान जुया विज्याःपिनिगु महाकरूणा न्याबलें
निर्मल व करूणायागु वेगं थहां वै च्वंगु जुइ । हानं जगतयात हित
सुख याताः उद्धार याये धैगु प्रणिधाननं सिद्ध जुया च्वंगु जुइ । छुं
विषयलय् बिरोध मयासे जगतयागु हित यायेगुलिइनं न्याबलें
प्रकाशमान जुया च्वनी ॥३॥

न निरोधतां करूणचारिकाकुला
ब्रजतेत्रिलोकि वरसिद्धिदायिका ॥

अमितामितेषु सुसमाप्तितांगता
गतिंगतेष्टपि अहो सुधर्मता ॥४॥

करूणां आकुल ब्याकुल जुया विज्याःगु स्वंगु लोकायातनं उत्तमगु
सिद्धि बिया विज्याइगु असंख्य-असंख्य षट्गतिइ लाना चर्बपि
प्राणिपिनि उपरे ब्यापकगु बुद्धपिनिगु स्वभाव गबलेंनं निरोध जुइ
नच् । स्व धर्मता (स्वभाव) आश्रयंगु खः ॥४॥

त्रिसमयेऽथ सिद्धि वरदा ददन्तुमे
वर दानताम्रगतितां गताः सदा ॥
सकलास्त्रीलोकि वरदा प्रसाधका
नाथा स्त्रियध्वगतिका अनावृताः ॥५॥

वरदान त्रिया विज्यायेगु ज्याये न्ह्याबले न्ह्याचिला विज्याइपि,
स्वंगुलोकयात वर वीगुलिइ अग्रपि स्वंगुकालसं अनावरण स्वभावपि
सकल नाथपि कायवाक्चित्त रूपि स्वंगु समयया अग्रसिद्धि जुया च्वंगु
वरदान जितः बिया विज्याहुँ ॥५॥

॥ इति साधनमालायां त्रिसमयराज बल्पोक्ता वज्रधरसंगीतास्तुति ॥

अथ प्रदक्षिणा

आकाशोत्पादचिह्नत्वा दनादिनिधनः परः ॥
महावज्र भयः सत्त्वोऽक्षोभ्यवजूदिसिद्धये ॥१॥

गुणि उत्पत्ति जुल व फुक्कं आकाशर्थे शून्य जूगुलि आदि अन्त
मदुह्य महावज्र स्वरूपह्य अक्षोभ्य तथागत जि खनाः प्रशन्न जुया
विज्यायेमा ॥१॥

सर्वोत्तम महासिद्धि महैश्वर्याधिदेवतः ॥
सर्ववज्र धरोराजाः प्रसीद परमाक्षरः ॥२॥

सिद्धि मध्ये उत्तमगु महामुद्रा सिद्धि लाभ याना विज्याःह्य
महाऐश्वर्यया अधिपति जुया विज्याःह्य परमाक्षर ज्ञान स्वभावह्य श्री
वज्रधर परमेश्वरनं जि खनाः प्रशन्न जुया विज्यायेमा ॥२॥

निर्दोष शाश्वतश्चापि सर्वरागानुरागिणः ॥

तत्त्वं प्रसीदमे भगवन् महारागोमहारतः ॥३॥

दोषं रहितह्य फुक्क महारागं युक्तह्य महाराज्ञी जुया विज्या ह्य,
हे भगवान वैरोचन तथागत ! छःपिनं जि खनाः प्रशन्न जुया
विज्याहुं ॥३॥

अत्यन्तशुद्धधर्माग्र आदिमुक्तस्तथागतः ॥

समन्तभद्रसर्वात्मा बोधिसत्व प्रसीदमे ॥४॥

अत्यन्त शुद्धगु धर्ममा अग्र जुया विज्याःह्य आदि अन्त मद्गुह्य
सकसिर्वा पुज्यह्य समन्तभद्र बोधिसत्व व तथागतपिनं जि खनाः
प्रशन्न जुया विज्याहु ॥४॥

सर्वोत्तममहासिद्धिर्महेश्वर्याग्रमुद्रया ॥

सिद्धवज्रमहोत्कर्षाद्वज्रगर्भाय ते नमः ॥५॥

फुक्क सिद्धिमध्ये उत्तमगु महासिद्धि जुया विज्याःह्य तःधंगु
ऐश्वर्यया मुद्रा धारणा याना विज्याःह्य उत्कृष्टगु वज्रसिद्धि याना
विज्याःह्य वज्रगर्भं बोधिसत्वयात्नं जिगु नमस्कार ॥५॥

सर्वसत्त्वमनोव्यापि सर्वसत्त्वहृदि स्थितः ॥

सर्वसत्त्वपिता चैव कामाग्रसमयाग्रिणाम् ॥६॥

सकल प्राणिपिनि नुगलय् बिज्याना च्वंह्य सधल प्राणिपिनि
 मनय् बिज्याना च्वंह्य पञ्चकाम गुणया समय पालन याना वःपिनि
 मध्ये सकसियां पिता जुया बिज्याःह्य छलपोल खः ॥६॥

येनसत्येन मेज्ञानं प्रज्ञोपायात्ममण्डलम् ॥

तेन सत्येनमेनाथ कामार्थं परिपूरय ॥७॥

ध्वहे प्रज्ञोपाय स्वरूपगु मण्डलयागु ज्ञानरूपि सत्त्वद्वारा हे नाथ !
 जिगु इच्छा पूर्ण जुयेमा ॥७॥

॥ इति क्रियासमुच्चये ॥

अष्ट मङ्गल

श्री बचल्ल पुण्डरीकध्वजवर कलशंचामरं
 मरस्ययुग्मं तच्छत्रं हेमदण्डं रवि शशि उभयं
 इच्छिणावर्तशंखं गोकन्याशंखभेरीदधिफल-
 कुसुमपात्रकोदीपमाला तुष्टासर्वार्थसिद्धि विमल
 सुमलसु मङ्गलंबोदि शन्तु ॥ विल्वदुर्वासिन्दुरंच
 दधिसर्षपचन्दनम् । पद्मं चरणार्घं पात्रञ्च
 दर्पणमष्टमङ्गलम् ॥

श्री बच्छ, तुगुगु पलेस्वां, उत्तमगु धर्वाय्, पूर्ण कलश, च्चामो, छजो न्वा, लुँया च्चु दुगु कुसा, सुर्धो चन्द्रमा, दाहिने शंख, सा, कन्या, शंख, नगरा (तःत्रगु वाजं), धौ, सिसाबुसा, मि. मत, स्त्रीमा आदि मङ्गल वस्तुत प्रसन्न जुयाः छिस्त फुकक सिद्धि व मंगल यायेमा ।

व्याः, सितु, ह्याउंसिह्लः, धौ, ईका, शीखण्ड, पलेस्वां सहितगु अर्षपात्र, ह्याय्कं थुलि वस्तुपात अष्ट मङ्गल धाई ।

अष्ट मङ्गलस्य प्रत्येक गाथा-

श्री बच्छ, बिल्व (व्या)

यत्मङ्गलं सकलसत्त्व हृदिस्थितस्य
सर्वात्मकस्य वरधर्म कुलाधिपस्य ॥
निःशेष दोष रहितस्य महासुखस्य
तत्मङ्गलं भवतुते परमाभिषेकः ॥१॥

अष्ट मङ्गलया प्रत्येक गाथा

बिल्वाभिषेक (व्याः सघं)

सम्पूर्ण प्राणिपिनि नुगतय् च्चंगु गुलि मङ्गल दु, अथेहे सम्पूर्ण प्राणिपिन्त थः भाःपा बिज्याइह्य उत्तमगु धर्मरूपि कुलया अधिपति जुया बिज्याःह्य सम्पूर्ण दोषं रहितह्य महासुख जुया बिज्याःह्य वज्रसत्त्वया गुगु मङ्गल दु वहे मङ्गल छंगु परमाभिषेक जृइया ।

पुराडलिक, दुर्वा (सितु)

यत्मङ्गलं सकलसत्त्व हितेस्थितस्य
बुद्धस्यदोष रहितस्य विबुद्ध बुद्धेः ॥

प्रज्ञांग संगरूचिरस्य विभात्मकस्य

तत्तमङ्गलं भवतुते परमाभिषेकः ॥२॥

दूर्वाभिषेक (सितु सघं)

सकल सत्वयात हित याना बिज्याइह्य दोषं रहितह्य बिशुद्धगु
बुद्धि दुह्य सप्त बोध्यङ्गयात धाराणा याना बिज्याःगुलि यैपुसे च्वंह्य
प्रभा युक्तह्य बुद्धयागु गुलि मङ्गल दु वहे मङ्गल छगु परमाभिषेक
जुहमा ।

ध्वजवत्त, सिन्दुर (ह्याउँ सिहः)

यत्तमङ्गलं सुरनरा सुरपूजितस्य

धर्मस्यतस्य कथितस्य निरुत्तरस्य ॥

लोकत्रयं प्रतिहितकस्य निरात्मस्य

तत्तमङ्गलं भवतुते परमाभिषेकः ॥३॥

सिन्दुराभिषेक (सिन्ह सघं)

देवतापि, मनुष्यपि व असुरपिसने पूजा याना तःगु लोकोत्तर
ज्ञान कनातःगु स्वगु लोकथातं हित याईगु निरात्म्य ज्ञानं युक्तगु
धर्मवैगुमु मङ्गल दु, व छगु परमाभिषेक जुहमा ।

कलश, दधि (धौ)

यः सत्वरत्न धर धर्म सकर्मवर्जी

मुद्रागणेन सहितस्य विपश्यकस्य ॥

बैरोचनस्य भवदुःख विनाशकस्य

तत्मङ्गलं भवतु शान्तिकरन्तवाद्य ॥४॥

दध्याभिषेक (धौ सघं)

सत्ववज्री, रत्नवज्री, धर्मवज्री, कर्मवज्री आदि मुद्रा सहितह्य
विपरयना याना बिज्याह्य भव संसारया दुःखयात फुका बिज्याह्य
बैरोचनया गुगु मङ्गल दु वहे मङ्गलं धौ छन्त शान्ति यायेमा ।

श्वामल, शर्षप (ईका)

श्री वज्ररक्ष वरयक्ष सवज्रपाणि
समुष्टितानांच सहितस्य अमोघसिद्धः ॥

यत्मङ्गलं हितकरं परमार्थं सिद्ध
तत्मंगलं भवतु शान्तिकरन्तवाद्य ॥५॥

शर्षपाभिषेक (ईका सघं)

वज्ररक्ष, वज्रयक्ष, वज्रपाणि अले मेमेपिनं बोधिसत्त्वपि सहित
अमोघसिद्धि बसपोलपिनि परहित यायेगु सिद्धिगु गुलि मङ्गलं
मङ्गलं धौ छन्त शान्ति यायेमा ।

मच्छ, गौरोचन

यत्मंगलं मणि मृतस्य जिनप्रभेण
सत्केतुनाच वरहा सुभाषितेन ॥

श्रीरत्न सम्भवाजनस्यनिषेवितस्य
तत्संगलं भवतुते परमाभिषेकः ॥६॥

चन्द्रनाभिषेक (गौरोचन सघं)

जिनप्रभ, सत्केतु, शुभाशितादि सहित मणि धारणा याना
बिज्याःह्य श्री रत्न सम्भव तथागतं गुगु मङ्गल सेवन याना बिज्यात
बहे छिम्त धर्माभिषेक जुइमा ।

तंछत्र पद्म, शंख

यत्संगलं कमलपाणि सवजूतीक्ष्णः
चक्रायुध प्रवर भाव सधूतस्य तस्य ॥
लोकेश्वरस्य सुगतस्य सुखात्मकस्य
तत्संगलं भवतुते परमाभिषेकः ॥७॥

पद्मशंखाभिषेक (पद्मशंख सघं)

पद्मपाणि, वज्रतीक्ष्ण, चक्रायुध, प्रवरभाव सहित लोकेश्वरपि
व महामुख स्वरुप जुया बिज्याःह्य अमिताभ तथागतयागु गुगु मङ्गल
खः बहे मङ्गल छगु परमाभिषेक जुइमा ।

यद्द्वज्जलाश्च शरमाल्य सगीतनृत्य
यत्पुष्प धूप वरदीप त्रिचिह्नगन्धैः ॥
पूजाभिरं प्रतिसमं त्रिमलं प्रगीतैः
तत्संगलं भवतुते परमाभिषेकः ॥८॥

दर्पणाभिषेक (न्हायकं सघं)

वज्रलाश्या, वरमाला, वज्रगीत, वज्रनृत्य, वज्रपुष्प, वज्रधूप, वज्रदीप, वज्रगन्धादि पूजाद्वारा असाधारणगु गुगु विशुद्धगु मङ्गल दु वहे छंगु परमाभिषेक जुइमा ।

अपिच

यत्मंगलं कुलिशपाणि सवज्रराज
श्री वज्रराज वरसाधु सुसम्भतेन ॥
अचोभ्यराज सुगतस्य महासुखस्य
तत्मंगलं भवतुते परमाभिषेकः ॥६॥

अपिच (अले हानं)

वज्रपाणि, वज्रराज, वज्रराग, वज्रसाधु समेत महासुख जुया बिज्याःह्य अक्षोध्य तथगतया गुगु मङ्गल खः, व मङ्गलनं छंगु परमाभिषेक जुइमा ।

यत्मंगलं हितकरं परमं पवित्रं
पुण्यक्रिया करणुमार्यं जनभियुक्तं ॥
कृत्स्नं जगाद् भगवान्मुनिशाक्यशिंह
स्तत्मंगलं भवतुते परमाभिषेकः ॥१०॥

भगवान श्री आक्यसिंह तथागतं गुगु हित जुइगु उत्तमगु पुण्यक्रिया आदि व आर्यजनपिसं य.ना धया च्बंगु फुक्क गुलि मङ्गल आज्ञा जुया बिज्याःगु ख व मङ्गलनं छंगु परमाभिषेक जुयेमा ।

॥इति क्रियासंग्रहस प्रतिष्ठाकर्म॥

राजाक्षत (ताये आखे)

लक्ष्मी धरः काञ्चन पर्वताभ-
स्त्रिलोक नाथस्त्रिमल प्रहीनो बुद्धो
विबुद्धाम्बुज पत्रनेत्रस्तन्मंगलं
भवतु शान्तिकरंतवाद्य ॥१॥

ताये आखे

शोभायमान जुया विज्याःह्य, लुंयागु सुमेरु पवंतथे बांलाःह्य,
स्वंगु लोकया नाथ जुया विज्याःह्य राग, द्वेष मोह ध्व स्वंगु मलं
(खिति रहितह्य ह्यःगु पलेस्वांया ह्यःथे जाःगु मिखा जुया विज्याःह्य
भगवान बुद्धे मङ्गल खः वहे मङ्गल छन्त थौं शान्ति यायेमा ॥१॥

तेनोपदिष्ट प्रवरंस्त्वकम्प्यः
रूयातस्त्रिलोके नरदेवपुज्यं
धर्मोत्तमः शान्तिकरः प्रजानां
तन्मंगलं भवतु शान्तिकरंतवाद्य ॥२॥

भगवान बुद्धं उपदेश याना विज्याःगु उत्तमगु सुनाःनं खलबल
याये मफैगु प्रशिद्धगु स्वंगु लोके मनुष्य, देवतापिसं पूजा याना
तैतःगु प्रजापिन्त शान्ति याइगु उत्तमगु वहे मङ्गलं थौं छन्त
शान्ति यायेमा ॥२॥

सत्धर्मयुक्त श्रुतमंगलाद्य संघो
नृदेवा सुर रक्षणीयो यः

श्री निवासः प्रवरोगुणानां
तन्मंगलं भवतु शान्तिकरंतवाद्य ॥३॥

सद्धर्मं युक्तगु धर्मयात अध्ययन याता तःगुलि मङ्गल जुया
बिज्याःपि, मनुष्य, देव, असुरपिसंनो रक्षा याये वःपि उत्तमगु गुणया
मङ्गलगु छेथे जुया बिज्याःपि संवनं मङ्गलहे खः व मङ्गलं छन्त भौ
शान्ति यायेमा ॥३॥

येधर्मा हेतुप्रभवा हेतुतेषां तथागतः
ह्यवदत्तेषांच योनिरोध एवंवादी महाश्रमण ॥

संसारे गुलि वस्तुत दु, व फुक्क वस्तुत थथःगु हेतुया कारणं
रत्पत्ति जूगु खः व फुक्क वस्तुया कारणनं तथागतं कना बिज्यात,
व कारणयात गथे मदय्केगु खः वनं कना बिज्यात । थजागु
सिद्धान्तह्य महाश्रवण बुद्ध खः । अर्थात-

की छु कारणे जन्मय् जुल, व जन्म जूया कारणनं कना
बिज्यात व जन्मय् जुइगुया कारणयात मदय्काः निर्वाण जुइगु छेनं
कना बिज्यात । थजाःह्य भगवान बुद्ध थजाःगु सिद्धान्तह्य खः ।

॥ इति अष्ट मङ्गल ॥

थनंलि कायेमचायात भावन स्वांतये-
शून्यता करूणां भिन्नं बोधिचित्त स्वरूपं
भावयत् । ततः स्वहृदयस्थ वीजाक्षर
नानालोकधातु स्फलित्याः अकनिष्ठ भूवना
गत्वा तस्मादप्य श्री फल लीयनत् ॥

थन स्वहाग्निरक्षा । पुष्पादि पूजा ।
थन स्त्रीनं पुरुषयात व्या लःह्याय्के, ग्वय्
विष्यके ।

थन लहा-ग्वय् बीके भौमचाया
लहातस लहाः ग्वय् तय्के भौमचा लमिं
माजुया लहातस लःलहाय्के मामनं भौमचां
ज्वना च्वंगु लहाः ज्वनाः कायेमचायात लः
लहाय्के । थकालिं भौमचाया लहाः तःलय्
तये कायेमचाया लहाः द्योनेतये थन शुभ
वेला लाकाः निह्यतेपुयां मोल नापं तथाः
बहनके । थाकुलि नकिनं सिफं लुये- स्वस्ति

वाक्य ष्वने । ये धर्मा । वज्रं धिये । मिजंयात
 ज्वला हायकं लवलहाये, मिसाथात सिंहःमू
 लःलहाये । मिजंहां मिसाथात सिन्च तयेके ।
 थन नकिनं ताःचा ज्वनकाः साले, न्वकु
 नकिनं लःधाः तयेके, माजुह्यं दुदुधाः हायेके
 म्हायेमचा तय्सं तुफिं बँ पुयेके, थकालिं
 अय्त्तँ ज्वनके, नाना वाद्य थाकाः मि
 मण्डल चाकहुयेकेवाक्य-

इयन्ताथागती मूद्रा ज्ञानलोक प्रभाकरी
 गृहीत्वा पाणिना पाणिं बुद्धकृत्य प्रवर्त्यताम्
 (येन सत्यय मे नाथ कामार्थं परिपूरय)

नैऋत्य कोनस व इशान कोनस
 स्वस्ति च्वसें कायेमचा भौमचाथात निराञ्जन,
 ल्वहाग्निरत्ना व अय्त्तँनं त्वये वाक्य- ॐ
 सर्व बुद्ध डाकिनी बज्जोष्णीष तिष्ठ २ हूँ फट्
 स्वाहा । ॐ वज्र हासा समय मनूस्मर
 स्वाहा ॥ थन धौ सघं विये निह्यसियाँ मोल

नाप तसें सिफं लुये । स्वस्ति वाक्य पदपं
यज्ञमण्डप स्वचा चाकडुयेके । थनंलि थव थव
थासे तये । धौ सघं बिये । आहुते बिये । बौ
बिये । चाक्र पूजा । पशूका ज्वनके, शिष्या-
धिवासन । मण्डल थिलके, किंग तिके ।
पुर्खाहुति । शताक्षर, क्षमार्पन, आसिर्वाद,
बिसर्जन । धौ सघं तये, सिहः तिये, दक्षिणा ।
थन निह्यतेपूयातं गार्डे तसें चरू जा व्वतये,
द्यो छायेके शोधन यासें पञ्चग्रास याकाः
चरू जा भोजन याके । कलंक व्छये ।
शेषाहुति । बिसर्जन । बलि व्छये । थनंलि
कडला व्व तये । धौ सघं ग्वल सघं बिये ।
सहभोजन- निह्यतेपूयातं थायभु तये ।
शोधन- ॐ समन्त बुद्धा नामो जोवलं तेजो
बलं ददे स्वाहा ॥ द्यो छायेके । सहभोजन याके
हार्पा अंगु पचिनं नके वाक्य- ॐ प्राणाय
स्वाहा ॥ दधु पचिं- ॐ अप्राणाय स्वाहा ॥


ध्वला पर्वि- ॐ समानाय स्वाहा ॥ सिका
पर्वि- ॐ उद्यानाय स्वाहा ॥ ह्याला पर्वि-
ॐ व्यानाय स्वाहा ॥ न्यापर्विनं नके- ओं
दिव्यानाय समाधि ध्यान प्रिनने स्वहा ॥
क्वाः फुक्कं तयेके । थ्वंता स्वतां तयेके । मूचु
दुरूचु सिसाफल तयेके । नुसिके । कलंक
व्यये । मुखसुद्धि ।

निष्ठ्याभु

सति खुन्हु आगमस लयसेवा ज्वलं
पूजा । भोजस निष्ठ्याये कलंक व्यये ।

सँ प्याके

हापां कलश पूजा ज्वलंत स्वने ।
(कलश, मत, पति, हाय्कं, सिद्धःमू, पञ्चगव्य



ग्रह मण्डल

ग्रह मण्डल चवथेगु कण्ठ

हापां चक्का छत्ता चवथाः उके गुकू कवथा
दयेके ॥

- १) गुंगु कवथाया दथुइ तुयुगु चक्र
- २) वयान्होने (पुर्वे) हाकुगु खड्ग
- ३) वया जवे (इक्षिणे) हाकुगु पाश
- ४) वया फुसे (पश्चिमे) तुयुगु चन्द्रमा
- ५) वया देपाय् (उत्तरे) वँचुगु बज्र
- ६) कुने कुने वँचुगु पलेस्वांत ॥

वयां पिने चाकलाक ह्यासुगु केश तये ॥

अनंलि भिहः पले चवथे ॥

- १) न्होने ह्याउँगु पलेस्वां
- २) वया लिक्क जवे तुयुगु पलेस्वां
- ३) " खड्ग

- ४) " जपमाला
- ५) " सफू
- ६) " कमण्डलु
- ७) " खड्ग
- ८) " चन्द्रसूर्य
- ९) " पाश
- १०) " सिंहाशन

श्यां पिनेनं ह्यासुगु केशं चाहुयेके
ह्याउँगुलिं पद्मात्रलि
ह्यासुगुलिं वज्रावलि
अनं ज्वालात्रलि
अनं पिने च्यागू श्रार तये.

- १) उके चिं तयेगु दक्कय् हाषां न्होने [पुर्वे]
ह्यासु वज्र
- २) अनं ल्गु अतः चत्रये जवे [दक्षिणे]
वँचू यमदण्ड
- ३) पश्चिमय् तुयुह्य नाग
- ४) उत्तरय् ह्यासुगु हिंसि

- ५) अनं पूर्व व दक्षिणाय् दक्षी अग्नय्
सुलापाः
- ६) दक्षिण व पश्चिमया दधुइ नैऋत्यय्
हाकुगु खड्ग
- ७) पश्चिम व उत्तरया दधुइ वायुव्यय् ह्याउँगु
व्रज
- ८) उत्तर व पूर्वया दधुइ इशान कोनय्
तुयुगु त्रिशुल
दक्षय् क्षिपा पिनं लः चिं तये ॥

भवचाल

शुक्रियागु मण्डः क्षिपा स्वयाः याना विज्याहूँ ।

ज्याथः जिथि जंक्व

ज्याथः जिथि जंक्व धकाः स्वकः तक्
याइ । दक्कये ह्वापां ७७ दँ ७ ला ७ न्हु ७
घौ ७ पलाय् याइगु भिमरथ क्रिया धाइ ।
थक्कय् श्याम् वर्ण सल घाना तःगु रथ,
पुनायेचा, चाकलाःगु ग्रह मातृका मण्डल
ध्वइ ।

निक्वःगु दद दँ द ला द न्हु द
घौ द पलाय् याइगु, ध्वइत देवरथ क्रिया
धाइ । थुके जः खः हँय् घानातःगु रथ,
पुनायेचा, प्यकुं लाःगु वसुन्धरा मण्डल ध्वइ ।

स्वकःगु ज्याथः जिथि जंक्व याइगु
६६ दँ ६ ला ६ न्हु ६ घौ ६ पलाय् खः । थुगु
कर्मयात महारथ क्रिया धकाः धाइ । थुके

सिंहशादुर रथय् घाये । पुनायेचा, चाक-
लाःगु उष्णीष विजयेया मण्डल च्वइ ।

भिमरथारोहन क्रिया विधिमाह ।

हापां दुसल खुन्हु ग्रहमातृका मण्डल
चवये । थनंलि दुसः खुन्हु गनकलश ३२ गः,
दुस्वकलश, ग्रहमातृक मण्डल, विज कलश,
नागपँ, धौ-पती, मत, पञ्चगव्य, पात्र व बलि
कथःथे स्त्रने [स्थापना याये] ।

सूर्यार्घ । पूजा संकल्प । गुरु मण्डल ।
पञ्चगव्य । सिंहतते । मोहनी फये । लंखवलि ।
त्रि-समाधि । धौ-पती, मत, कलशादिं पूजा ।
पुलांद्द यो पूजा । उपाध्यानं किरण-कोटनः ।
गनकलश, दुस्वकलश पूजा । मण्डल पूजा
[थन मण्डलाधिवासननं याये] ॥

थनंलि न्हूद्द यो, जंक्त्र याःद्द,
इहिमचात लँ स्वयाः दुतकाये थासय् थासय्

फयतुके । जंक्त्र याःह्य व इहिमचातयूत पूजा
संकल्प याके । गुरू मण्डल दनके । मत
पूजा । शिष्याधिवासन । पञ्चगव्य बिये । नूह्य
घोयात दशकर्म प्रतिष्ठा- गर्भाधान निसें
पुंसवन, सिमान्तोपनयेन, जातकर्म, नामाकर्म,
अन्नप्राशन, चूडाकरण, व्रत बन्धन व समावर्त
तक्क याये । ईमचातयेत शत भेदिका काये ।
जंक्त्र याःह्य पञ्चरक्षा निसें नवग्रह आदि
जन्म नक्षत्र देवता पर्यन्तं १५ ह्य देवतापिनिगु
१५ ता त्रिग्रह भ्यगः पूजा याके ।

न्होपां प्रतिशराया तुयु हामो पूजा

स्वां ह्यफवः तये भावना- ओं नमो
भगवती महा प्रतिशरा पङ्कारजाम्बिभाव्य
ततः स्वहृदय अकारेण चन्द्र मण्डलं तस्य
परि षँ कार रश्मिना गुरू बुद्ध बोधिसत्वा
दिन विभास्या सत्वार्थं कृत्वा अकनिष्ठ भुवनं

गत्वा महाप्रतिशरा प्रमुखान्सपरिवारान् पुरतो
गगन देशे दृष्ट्वा ॥ आकर्षण- ओं चक्रे हूँ ।
ओं वज्राङ्कुशेत्यादि । ज हूँ वँ हो ॥ धूप-
कपू । निराञ्जन । त्रहाग्निरक्षा । मत्तफं त्वथे ।
अध्यषना । स्नान । धारामण्डल । सिंहः-
श्री खण्ड । स्वां- तुयु कलिह स्वां । नैवद्य ।
भुगुति- दुरूजा । मधि-मोदन । फल- प्रियंगु ।
पञ्चामृत । मत्त- तुयु हामो, चिकं । पं. स्वा. घं
स्तुति । ताये जप । सिफं लुये । ये धर्मा ।
अकाल मुख । दक्षणा । लुँयाचक्र, हेरा । अर्घ ।
स्तुति- प्रतिशरे नमस्तुभ्यं सर्व सम्पत्ति
दायिनीम् । शंख कुन्देन्दु वणाभा वजू-
सत्वात्मिकां पराम् । शताक्षर ॥

महासाहसू प्रमर्दनीया हाकुहामो पूजा

स्वां कृपवः तये भावना- ओं नमो
आर्यमहा साहसू प्रमर्दनी हूँ कारजाम्बि-

भाष्य । धूप- कुंकूम, कस्तुरी । निराञ्जन ।
स्वहाग्नि रक्षा । मतफं त्वये । अध्ययना ।
स्नान । धारा मण्डल । सिद्ध- कस्तुरी । स्वां-
बँचु स्वां, आभर्ति । नैवद्य । भुगुति- धौ, हामो,
ध्योजा । मधि- सुवर्णं मधि । फल--गुँ फमसि ।
पञ्चामृत । मत- हाकु हामो चिकं । पं. ला.
घ. स्तुति । ताये जप । सिफं लुये । ये धर्मा ।
अकाल मुख । दक्षिणा । लुँया बज्र, नील
रसन । अर्घ । स्तुति--

कृष्ण वर्णां महाघोरा भीमदृष्ट्रां भयंकराम् ।
दुर्दान्तत्राशिनीं देवीं क्रोध वर्ज्नीं नमाम्यहम् ॥
शुताचर ॥

महामायूरीया ईका पूजा

स्वां ह्रस्वः तये भावना- ओं नमो
भगवती आर्य महा मायूरी मँ कारजांबि-
भाष्य । धूप-, कुंकूम, श्रीखण्ड । निराञ्जन ।

त्वहाग्नि । मतफं त्वये । अध्यषणा । स्नान ।
 धारा मण्डल । सिद्ध-कुंकूम ! स्वां- लुँ गजू
 स्वां । नैवद्य । भुगुति- धौ, कस्ति, ह्यासु जा ।
 मधि-खलुमधि । फल-भिसि । पञ्चामृत । मत-
 ईका चिकं । पं. ला. घं. स्तुति । ताये जप ।
 सिफं लुये । ये धर्मा । अकाल मूख । दक्षिणा ।
 लुँया ज्वाला पुष्पराज । अर्घ । स्तुति-

महाज्ञानोद्भवादेवीं हेमवर्णां प्रभाकरीम् ।
 विद्याराज्ञी महारमानीं मायूरीं प्रणमाम्यऽहम् ॥
 शताक्षर ॥

शीतवतीया मू पूजा

स्वां छफवः तये भावना- ओं नमो
 भगवतीं आर्यमहाशीतवतीं त्रौं कारजाम्बि-
 भाव्य । धूप-, कस्तुरी । निराञ्जन । त्वहाग्नि
 रत्ना । मतफं त्वये । अध्यषणा । स्नान । धारा
 मण्डल । सिद्ध-, पञ्चगन्ध । स्वां- मूस्वां, कर्षे

गधि स्वां । नैवद्य । भुगुति- खार्पाःवंगु दुरु
जा । मधि-खाजा । फल-भ्रमसि । पञ्चामृत ।
मत-धयो । पं. ला. घं. स्तुति । ताये जप । सिफं
लुये । ये धर्मा । अकाल मुख । दक्षिणा । लुँया
विश्ववजू, पन्ना । अर्घ । स्तुति-

चारुवक्तां विशालाक्षी विकचाम्भोरुहासनीम् ।
पद्मरागारुणादतीं नमामि जगदम्बिकाम् ॥
शताक्षर ॥

मन्त्रानुसारणीया ह्युत्तमाय् पूजा

स्वां ह्रस्व तये भावना- ओं नमो
भगवते महा मन्त्रानुसारणी शं कारजाम्बि-
भाव्य ॥ धूप- शील । निराञ्जन ।
त्वहाग्नि रक्षा । मतफं त्वये । अध्यषना ।
स्नान । धारा अण्डल । सिंह- रक्त
चन्दन । स्वां- ताकुस्वां । नैवद्य । भुगुति-चाकु
दुरु जा । मधि-मथ । सिसाबुसा- बय्लि ।

पञ्चामृत । मत-- तुमो चिकं । पं. ला. घं.
स्तुति । ताये जप । सिफं लुये । ये धर्मा ।
अकाल मुख । दक्षिणा- लुँथा पद्म, माणिक ।
अर्घ । स्तुति-

बैदुर्यं शुक निर्भासां मदनोत्सुक विभ्रमाय् ।
काखोर्दछेदनी देवी नमामि दिव्य रुपिणिम् ॥
शताक्षर ॥

आदित्यया स्वांवा पूजा

स्वां छफत्रः तये भावना- ततः पूर्व
सताश्वरथमारुढम्बन्धू क कूसूम प्रभम्बरदाभय
हस्ताभ्यां दधानं रक्त पद्मकं एवं भूतभादित्यं
विभाव्य ॥ धूप- कुंकूम । निराञ्जन ।
स्वहाग्नि रक्षा । मतफं स्वये । अद्ययषना ।
स्नान । धारा मण्डल । सिंहः- रक्तचन्दन ।
स्वां- ताकुस्वां । नैवद्य । भुगुति-दुरु, चाकुजा ।

मधि खलुमधि । सिसाबुसा मिसि फल ।
पञ्चासृत । मत- तुमोचिकं । पं. जा. यं ।
स्तुति । ताये जप । सिफं लुये । ताये पूजा । स्वां ।
जाकि लखं पूजा । दक्षिणा- मचासुम सगणिके ।
अर्घ वाक्य- ओं नमो भगवते आर्य आदित्याय
। काश्यप गोत्राय आदित्य गर्भसंभूताय अरुस
सहिताय ककतन पद्मराग वधूक कूसुमशह
शाय रक्त वाश पूष्परक्तगन्ध यज्ञोपविताय
तुरंग रथसमारूढाये देव हानव कुम्भाराड
डाकिन्यान्तर सहिताय अबतर २ भगवन्म-
नून्धारणो हितार्थाय इदं ग्रहमण्डले मध्ये
अनूपविश्य २ इदमत्रत गन्धपूष्पधूबदीपोपहार
वलि च प्रति ग्रहता २ नमोस्तुते यस्यक्रियते
तस्य भगवान् शान्ति पुष्टि कूरु आदित्याय
अर्घ प्रतीच्छ स्वाहा ॥ स्तुति-

जपाकुसुम संकाश काश्यपेयं महाश्रुतिम् ।

तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणमामि दिवाकरम ॥

शंतांबर ॥

सोमया सियु हामो पूजा

स्वां ऊफवः तये भावना- ओं तद्रामे
हंससारूढं कूण्डपद्म संनिभं वलाय कलाभ्यां
भुविभुः कूमूद मूत्तमं एवं निशाकरं विभाव्य ॥
धूप- कपू । निराञ्जन । त्वहाग्निरक्षा । मत्तफं
त्वये । अश्वघना । स्नान । धारा मण्डल ।
सिद्धः श्रीखण्डे । स्वां- तुयुगु पलेस्वां । नैवद्य
भुगुति- धौ जा । मधि- फिणि मधि ॥ फलफुल
लसि । पञ्चामृत । मत्त- कपू, तुयु हामो
चिकं । पं. ज्व. घँ. स्तुति । ताये जप ।
सिफं लुये- ताये पूजा । जाकि, स्वां, लखं
पूजा । दक्षिणा- शंख, मोति । अथ- ॐ
सोमायं अमृतं मधनोद्वाप रभा सुतायु

रभास पुत्राय हारति रक्षिर काशप पुष्पसदृशाय
 शुक्लवासपुष्पगन्ध यज्ञोपवीताय हंसारूढाय
 देव दानव कूर्मभारुड डाकिन्यन्तर सहिताय
 अवतर २ भगवन्मनूष्याणां हितार्थाय इदं ग्रह
 मण्डल मध्ये अनूप्रविश्य २ इदं अक्षत
 गन्धपुष्पधूपदीपोपहार वलिच प्रति ग्रहतां २
 नमोस्तुते यस्यक्रियते तस्य प्रीतिकरो भवान्
 शान्तिं पृष्टिं कुरु सोमाय अर्घ्यं प्रतीच्छ
 स्वाहा॥ स्तुति-

दधि शंख तुषाराभं क्षीरो दाण वसम्भवम् ।
 नमामि शशिनं देवं शम्भो मुकुट भूषणम् ॥
 शताक्षर ॥

मङ्गलया पःका पूजा

स्वां छफत्रः तये भावना- अग्नौ
 व्यागमारूढं रक्ताम्भ भिम भिषणां सठय वाम
 भुजाभ्यां कटोर मूरुडधारिणम् एवं भूतं

अंगारं विभाव्य ॥ धूप- गुंगू । निराञ्जन ।
 त्वहाग्नि रक्षा । मतफं त्वये । अष्टवषणा ।
 स्नान । धारा मण्डल । सिह- रक्तचन्दन ।
 स्वां- अशोय स्वां । नैवद्य । भुगुति- चाकुचा ।
 मधि- लड्डू मधि । सिलाबुसा- लैँ । पञ्चामृत ।
 मत- तुमो चिकं । पं. ला. घं. स्तुति । ताये
 जप । सिफं लुये । तार्ये पूजा । जाकि. स्वां.
 लखं पूजा । दक्षिणा- धुसा भिषु । अर्घ
 वाक्य- ॐ नमो भगवते अंगाराय महादेव
 पुत्राय पृथ्वी गर्भ सम्भूताय हूत वहसं प्रज्व-
 लिताय रक्तवास पुष्पधूपदीपगन्ध यज्ञो
 पवीताय क्वागारूढाय वज्र धृक कूल देवताय
 देव दानव कूभाण्डासूर डाकिनी अन्तर
 सहिताय अवतर २ भगवन्मनूष्यानां हितार्थाय
 इदं ग्रह मण्डल मध्ये अनूप्रविश्य २ इदम-
 च्चत गन्धपुष्पधूपदीपोपहार वलिक प्रति गृह्णतां
 २ नमोस्तुते यस्यक्रियते तस्य प्रीतिकरो भवान्

शान्तिं षष्टिं कुरु भूमि सूताय अर्घ्यं प्रतीक्य
स्वाहा ॥ स्तुति-

। धरिण्यागर्भं सम्भूतं विद्युत्तेजं समप्रभम् ।
। कुमारं शक्तिं हस्तं च अङ्गारं प्रणमामि हम् ॥
शताक्षरं ॥

बूधया ईकाः पूजा

स्वां छप्त्रः तये भावना- दक्षिणे पद्मा-
रूढं पीताभं पंकजं सव्यवामभूजाभ्यां तुद-
धानमिषुकासूकं एवं भूतं बूधं विभाव्य ॥
धूप- सिद्धाये । निराञ्जन । लवहाग्नि रक्षा ।
मत्तफं त्रये । अध्यषणा । स्नान । धारा
मण्डल । सिंह- कस्तुरि, गौरोचन । स्वां- सिकु
स्वां । नेत्रय । भुगुति- तद्वज्रा ध्यो । मधि
स्वापो मधि, धु मधि । सिसानुसा- साकुसि ।
पञ्चामृतं । मते- ईका चिकी । पञ्चमं स्तुतिः

ताये जपे । सिफ सुये । तयि पूजे । जाकि,
 स्वां, लखं प्रजा । दक्षिणा- सुँ पलेस्वां, पुष्प
 राग । अर्घ वाक्य- ओं नमो बूधाय सोम सताम्य
 रोहिणी पुत्राय अकोमारी सारी शुक महं प्रस-
 दृशाय ब्रह्म सूर्य देवताय हरिद्राभ पुष्पधूप-
 दीपगन्ध यज्ञोपवीत प्रियाय कमळा रुढाय
 देव दानव क्रुं भाण्ड डाकिन्यन्तर सहिताय
 अवतर २ भगवन्दानपते हितार्थाय इदं ग्रह
 मण्डल मध्ये अनूपविश्य २ इदमचत
 गन्धपुष्पधूपदीपोपहार बलिष्व प्रति ग्रहता २
 नमोस्तुते यस्य क्रियते तस्य प्रीतिकरो
 भगवन्दानपते शान्तिं कुरु बूधाय अर्घ
 प्रतीच्छ स्वाहा ॥ स्तुति-

प्रियङ्गु कलिकुश्यामिहयेन प्रतिमंबूधम् ।
 सौम्या सौम्य युखोपेतन्नमामि शान्तिं नमः ॥
 शताक्षरं ॥

वृहस्पतिया तव्छ पूजा

स्वां छफत्रः तये भावना- नैऋत्येगजमारूढं
विभ्रतमाला मण्डलं पीताभं पद्म पद्माक्षं वेद
वेदाङ्ग पारगं एषं भूतं वृहस्पतिं विभाव्य ॥
धूप- द्यो, कस्ति । निराञ्जन । लवह्नाग्नि रक्षा ।
मतफं स्वये । अघ्यषना स्नान । धारा मण्डल ।
सिद्ध- श्रीखण्ड । स्वां- अजुस्वां । नैवद्य । भुगुति-
धौ दुरुजा । मधि- सूमधि । सिसाबुसा- इसि
मत- ईका चिकं । पं. क्षा. घं. स्तुति । ताये जप ।
सिफं लुये । तार्ये पूजा । जाकि, स्वां, लखं
पूजा । दक्षिणा- लुँ, पुष्पराग । अर्घ- ओं नमो
वृहस्पतये अंगार सूताय चतुर्बेदाय देव
गुरुपाध्याय पीतवास पुष्पधूपदीपगन्ध यज्ञो-
पवीत प्रियाये अक्षोभ्य कूलदेवताय देव
दानवगन्धर्वासुरगरूड कूभाण्ड डाकिन्यन्तर
सहिताय अवतर २ भगवन्दानपते हितार्थाय

इदं ग्रह मण्डल मध्ये अनूपविश्य २ इदम
 चतुर्गन्धपूष्पधूपदीपोपहारश्चिचप्रतिग्रहतां २
 नमोस्तुते यस्य क्रियते तस्य प्रीतिकरो भवान्
 शान्तिं पूर्ष्टिं कुरु वाचस्पतये अर्घ्यं प्रतीच्छ
 स्वाहा ॥ स्तुति-

देवानाञ्च ऋषिणाञ्च गुरुं काञ्चन सन्निभम् ।
 ब्रह्ममूर्तिं त्रिलोकेशं प्रणमामि बृहस्पतिम् ॥
 शताक्षर ॥

शुक्लया कयगू पूजा

स्वां ह्रस्वः तये भावना- पश्चिमे
 मकरारूढं विभुदक्ष कमण्डलं हिम कुन्देन्दू
 संकाशं नाना शास्त्र विदाम्बरं एवं भूतं
 भार्गवं विभाव्य ॥ धूप- कूशहा शील । निरा-
 ज्ञन । लवहाग्नि रक्षा । मत्तफं त्वये ।
 अघ्यषना । स्नान । धारा मण्डल । सिंह- श्री
 खण्ड । स्वां- चव स्वां । नैवद्य । भुगुति- चाकु

जः। मधिः। श्रीकुमधिः। फलफुलः। श्रीसिद्धिः।
 पञ्चाभृत्। मत- ध्यो। पं। ला। घं। स्तुतिः।
 तायेऽजपे। सिफं लुये। तार्ये पूजा। जाकि,
 स्वा, लखं पूजा। दक्षिणाः लुँपु वःश्रा सल।
 अर्घ- ओं नमो शुक्लाय भृगु सूताय असूर
 गुरुप्राध्याय वैरोचन कूलदेवताय शुक्लः वशि
 प्रूपधूपदीपगन्ध यज्ञोपवीताय तुरंगमारुहाय
 देव दानव गन्धर्वासुर गरुड कूंभारद डाकिन्ः
 न्तर सहिताय अवतर २ भगवन्दानपते हिता-
 र्थाय इदं प्रह मण्डल मध्ये अनप्रविश्य २
 इदमन्वत गन्धपूष्यधूपदीपोपहारं वल्लिच
 प्रतिकरो भगवान् शान्तिं पृष्टि कुरु भगवोपे
 अर्घ्यं प्रतीच्छे स्वाहा ॥ स्तुति

हिमकुन्दसृणालाभं देह्यानां परमं गुरुम् ।
 सर्वज्ञास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ॥
 शुकान्वर ॥

शनिदशरथा माये पूजा

स्वां छपंवः तये भावना- वायुव्य
 कच्छमारुढ भिन्नाजरशनिप्रभं दंडायदक रंभिमं
 अक्षोभ्य कल संभवं एव भूतं शत्रिश्वरं
 विभाव्य ॥ धूप- गंधक । निराञ्जन । त्वहाग्नि
 रक्षा । मतफं त्वर्ये । अर्घ्यपत्रा । स्नान । धारा
 मण्डल । सिंह- सर्व गन्ध । स्वां- कूलेस्वां ।
 नैवद्यः अभुक्ति- द्वाककाञ्चाकुजा । अधि- हाकु
 धिम- चतामधि । सिस्रबुद्धान्- शुभ्रमसि ।
 मत- ह्रासो चिकं । पं. ला. घं । स्तुति
 ताये जप । सिफं लुये । तार्ये पजा । जाकि,
 स्वां, लखं पूजा । दक्षिणा- फड नील । अर्घ्य
 ॐ नमो शनिश्वराय शनिदशरथ पुत्राय छाया-
 गर्भसंभूताय शत्रिदक्षिणसंभूताय यमगोत्राय
 अक्षोभ्य कूक्षदेवताय लीलावीर्य नीलपुष्पधूप
 दीपः शोषनील प्रियार्थं कूर्म-रथ सन्नारुढाय

देव दानव गन्धर्वासुर कुंभाण्ड डाकिन्यन्तर
सहिताय अक्षतर २ भगवन्दानपते हितार्थाय
इदं ग्रहमण्डल मध्ये अनूप्रदिश्य २ इदमक्षत
गन्धपूषधूपदीपंपहार बलिष्व प्रतिग्रहतां २
नमोस्तुते यस्य कृत्यते कर्म तस्य प्रीति भव
शान्ति पूर्ष्टि रक्षा कुरु कृष्ण वर्णाय अर्घं
प्रतीच्छ स्वाहा ॥ स्तुति-

निजाञ्जननिभं देहं रविपुत्रं महाबलम् ।
छाया गर्भं संभूतं पूणमामि शनैश्चरम् ॥
शताक्षर ॥

राहुया म्वा पूजा

स्वां छफवः तये भावना- उत्तरे मेष
मारुढमर्द्धकायां जन पूभं सद्यवामे भुजा
भ्यांतु विभुद्विधूदिनेश्वरं एवं भूतं राहुम्वि
भाव्य ॥ धूप- सर्वगन्ध, गुंगू, अगुर ।

निराञ्जन । त्वहाग्नि रक्षा । मतफं त्वये ।
 अध्यषना । स्नान । धारा मण्डल । सिद्ध-
 नीरांगुरा । स्वां- बभुस्वां, अजकुलिस्वां ।
 नैवथ । भुगुति- दाखला, वल्लयेला माय् जा ।
 मधि- फिणि । सिसाबुसा- गुँ भूमसि ।
 पञ्चामृत । मत- हाभोचिकं । पं.ला.घं. स्तुति ।
 ताये जप । सिफं लुये । ताये पूजा । जाकि,
 स्वां, लखं पूजा । दक्षिणा- खड्ग लावत । अर्घ
 ॐ राहुवे सिंह सूताय अमृत प्रियाये कूलिशे-
 श्वर देवताय व्योमरथमारुढाय कृष्णवास
 पूष्पधूपदीपोपहार गन्ध यज्ञोपवीतयाये देव
 दानव गन्धवासूर गरुड कूर्मभाण्ड डाकिन्यन्तर
 सहिताय अबतर २ भगवन् दानपते हितार्थाय
 इदं ग्रहमण्डल मध्ये अनूपविश्य २ इदमक्षत
 गन्धपूष्पधूपदीपोपहार बलिच प्रतिग्रहतां २
 नमोस्तुते यस्य क्रियते कर्मत तस्य प्रीति भव

शक्ति-पुष्टि-रक्षां कुरु-राहुव्ये । अर्थं पूतीरुकी
स्वाहा ॥ स्तुति-

सिंहिकी-गुर्भ-सम्भूतं-सर्वदेव-भयंकस्मि ।
अर्द्ध-कासं-सहादीसि-राहुनिस्यं-नमो-स्य-हम् ॥
शताक्षरः ॥

केतुया कवल पूजा

स्वां उपव्रः तये भावना- इशाने पूच्यः
मारुतं नामे रुद्धं लोहितं अधस्तु-पन्नयाकारं
खडग-पाश-भृतेकर-एवं-भूत-धूस-वर्ण-केतुं
विभाष्य ॥ धूप-वाल । निराञ्जन । त्वहाग्नि-
रक्षा । मत्तफं स्वये । अध्यषना । स्नान । धारा
मण्डल । सिंह-पञ्चगन्ध । स्त्री-नामा वर्ण ।
नैवेद्य । मुगुत-मूजा । सिसा-केरा । मधि-
हामी-मोधि । पञ्चामृत । मत्त-तिसि-चिकी वं
लां घ-स्तुति । तयि-जव । सिफ-लुय । तयि
पूज्म ती-जि-कि-स्वां-सिखन्पू-ज-इ-चि-ए-ए

च्वलेचा विदोख ह्यः । अर्घ्य- ॐ केतवे आकेशी
 सूताय कालपाश व्यग्रहस्ताये अवतर भगव-
 न्दानपते हितार्थाय इदं ग्रहमण्डल मध्ये
 अनूप्रविश्य २ इदमक्षते गन्धपुष्प धूप-
 दीपोपहार बलिच पति गृह्णतां २ नमोस्तुते
 यस्य क्रियते कर्म तस्य प्रीतिकरो भव शान्ति
 पुष्टि कुरु केतवे अर्घ्य प्रतीच्छ स्वाहा ॥ स्तुति-
 यज्ञाल धूमसंकाशं तारा गृह नमस्कृतम् ।
 रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं त्वां केतुं पणामाम्यहम् ॥
 श्वताक्षर ॥

जन्म नक्षत्रया आखे पूजा

स्वां छफवः तये भावना- जन्म कोणे
 अजारुढं भोगपत्र पुरोदभवं वराभयंकरन्देवं
 हिम कूण्डेन्दु सन्निभम् एवं भूतं जन्मिन्निव
 भाव्य ॥ धूप-श्रीखण्ड । निराञ्जन स्वहाग्नि उच्चा ।
 मतफं स्वये । अद्यषणा । स्नान । धारामण्डल

सिंह- श्रीखण्ड । स्वां- जीस्वां, तुयु केँ गधि
 स्वां । नैवद्य । भुगुति- धौबजि हामो । मधि-
 यःमधि । सिसा- चाकुभाले । पञ्चामृत । मत-
 कपू, तुयु हामो चिकं । पं. ला. घं. स्तुति ।
 ताये जप । सिफं लुये । तार्थे पूजा । जाकि,
 स्वां, लखं पूजा । दक्षिणा- वह्या सिंहाशन
 मोति । अर्घ- ॐ नमो भगवते जन्माय नक्षेत्र
 देवताय शुक्लवासः पूष्पधूपदीपगन्ध यज्ञो
 पवीत प्रियाय देव दानव गन्धर्वासुर गरुड
 डाकिन्यन्तर सहिताय अवतर २ भगवन्दान-
 पते हितार्थाय इदं गृहमण्डल मध्ये अनू
 प्रवेश्य २ इदमक्षत गन्धपूष्पधूपदीपोपहार
 बलिं च पूति गृह्णतां २ नमोस्तुते यस्यक्रियते
 कर्म तस्य पूति करो भव शान्तिश्च पूष्टि रक्षां
 कुरु जन्माय अर्घं पूतीच्छ स्वहा ॥ स्तुति-
 शुभ्राम्मोरुहसंकाशं सर्वं देव नमस्कृतम् ।
 सिद्धिदं सर्वसत्त्वानां जन्मदेवं नमाम्यहम् ॥
 शताक्षर ॥

(ग्रह मण्डलया १५ ता बिहिब पूजा कवचान)

धनंलि न्हूह्य षोपिनिसें कथा इहि-
मचात सकसिकें शत भेदिका काये । जंक्व
याःपिके कायेम्वाः । न्या १ ग्वा २ चि ३
मिकुसिं ४ मदन फल ५ शोभाय फो ६ चाकु
७ ताये ८ आखे ९ पालु १० ध्व किता
उयःनां लपते पो चिनाः शतभेदिकाय् घाके ।

धनंलि महादिगु च्याके । विधिवत्
महादिगुनं चिकं थलनं पूजा । बलि बिये ।
चक्र पूजा । शिष्याधिवासन । फखाभिषेक ।
मण्डल थिके । किग तिके । मण्डल ध्वये ।
(पती लिकाये म्वाः) सिद्धः तिये । बिसर्जन
जक याये, छुं लिकाये मज्यू । जंक्व याःह्यं
इहिमचातयेत पालं याके । मामकी पूजा ।
समया चक्र । भोजन (माःसा कलंक ठ्छये) ।
सतिखुन्हू हापां महादिगु बिसर्जन याये ।

अनंलि क्रमाकंठ स्थापना थाये ।
सतिखुन्हू हापां सुचिस्नान यानाव प्रतिष्ठा
ज्वलं, यज्ञ कूणडल, षीजकलश, पूर्णा कलश,
नागपँ, श्री लक्ष्मी जञ्जलक्ष्मी, धौपती, मत,
देशबलि माक्व थासं थाये स्वने । इनाये,
ऐलिं कायूकः वृद्धयाः लँस्वयाः दुकाये,
माःथाये तये ।

सूर्यार्घि । पूजा संकल्प । गुरुमण्डल ।
पञ्चगव्य । सिद्ध तये । लंख बलि । समाधि ।
कलशाधिवासन । कलश आदिं सकतां पूजा
अग्नि स्थापना । अग्न्याहुति । थन मर्जात
थे पुलां देव पूजा । देवताहुति । मण्डल, गन
कलश पूजा । किरण पूजा । जंक्व याःह्यं इहि-
मचात लँ स्वसें दुतकाये स्वस्तिक च्वयाः
आसंखादि ज्ञानाः फयतुके । गुरुमण्डल
दनके । मत पूजा विसर्जन । उपाध्यानं क्रमथे

न्हूह्ययो, महमातृकादिं विधिये प्रतिष्ठा यानां
 ह्ये । योत लिसें जंक्व याःह्यसित इहियाःपित
 निराञ्जन, ल्वहाग्नि रक्षा, वज्रताःचा मतफं
 त्वये । मोदस आदिवा तये स्वच्छा लिमिचानं
 त्वसें लःल्हाना बिये । ल्वःमाचास तुतिं माये
 क्येकाः रकमियात लः लहाके । इहिमचातयेत
 लुसि धेनके वाक्य- ॐ सर्व तथागत काये
 विशोधने स्वाहा ॥ धनंलि लहाः पूजा धूनकाव
 स्वस्ति च्वयाः ल्वँहतस जंक्व याःह्ययात
 कूट्कूटासनं लहाः विन्ति याकातये । जंक्व
 याःह्यया क्यँलय् अंव हामो तये, सर्वोषधिनं
 तये । पञ्चथत्रीरपिनि जवगु लँचा त्वसें कसा-
 थगां न्ययाव प्यंगु समुद्रया लः तयागु अँपचा
 ज्वनके आचार्यनं वज्रघण्ट थासे शंखे कलश
 लंख तयाः लुये । प्यह्य थकालिनं लुये । सर्व
 कर्निक कलशोदक स्नान यातके स्वकः गाथा
 वने वाक्य -

यत्मङ्गलं सभृतस्य, जिनप्रभेन, सत्केतुनाच
महासुभाषितेन ।

श्री रत्न सम्भव जिनस्य निशेषितस्य तत्मङ्गलं
भवतुते परमाभिषेकै

यत्मङ्गलं सकल सत्त्व हृदिस्थि तस्य,
सर्वात्मकस्य वरधर्म कुलाधिपस्थ ।

निशेष दोषो रहितस्य श्री महेश्वता भवतारस्य
महा सुखस्य, तत्मङ्गलं भवतुते परमाभिषेक ॥

यत्मङ्गलं कमल पाणि सवज्रतिष्ठन चक्राध
प्रवर भाषितस्य

लोकेश्वरस्य सुगतस्य सुखात्मकस्य तत्मङ्गलं
भवतुते परमाभिषेक ॥

धनंलि ताःचा उवनकं वसलायाव
दुतहयाः थवथासं तये पञ्चगव्य विये । वस्त्र
वसः दिगस्वया लःल्हाये कलश लखं हाहा
याये । पूहायूचा आदि तिसानं दिग स्वयाः

लःल्हाये । मिसाह्मयात समाःयाके, मिजंह्म
यात वेतार्लि चिके । वसतं पुंके तिसां तिके
पुनाय्चानं छुके योमुनं तिके ह्यय्खापां छुके ।
सिदुराभिषेक विये मिजंह्मेसित सिह्मःनं तिके
मिसाह्मेसित सिंचतयेके । जंक्व याःह्यसियां
पञ्चरक्षाया, नव ग्रहया बिहिव दान याके ।

पञ्चरक्षाया न्याथी बिहिव- तुयु
हामो, हाकु हामो, ईका, मू व ह्याउँ माये
छथि छथि यायां संकल्प यानाः वज्राचार्य
गुरुजुपिसं दान काये । ग्रह दान ॥ ह्यापां
आदित्यया स्वांवा ब्राह्मणयात बीके दान
वाक्य- ॐ आदित्याय काष्यपगोत्राय, अश्विनि
गर्भसंभूताय, अमिताभ कूल देवताय, दानपते
अमूकस्य आयूरारोज्ञ कामनार्थं सर्वरोग
प्रशान्त्यर्थं रजत घटीत सवत्सधेनु दानं
तुभ्यमहं संप्रयच्छामि सवत्सधेनु प्रतिष्ठार्थं
प्रदोषथाम्यहम् ॥

सोमया तुयु हामो वज्राचार्ययात् बीके
दान वाक्य- ॐ सोमाय क्षीरार्णव संभूताय
रम्भा पुत्राय, अमूकस्य स्व स्व वांछा
कामनार्थं रजत घटीत शंख तुभ्यमहं प्रय-
च्छामि शंख प्रतिष्ठार्थं दक्षिणा संप्रढोषयाम्हम् ॥

मङ्गलया पःका ब्राह्मणयात् बीके दान
वाक्य- ॐ अंगाराय भूमिसूताय इश्वर
देवताय दानपते अमूकस्यायुरारोग्य कामनार्थं
सर्वरोग प्रशान्त्त्यर्थं रजत घटीत अन्न दान
तुभ्यमहं सद्दच्छामि रजत घटीत अन्न दान
प्रतिष्ठार्थं दक्षिणा संप्रढोषयाम्यहम् ॥

बुधया ईका वज्राचार्ययात् बीके दान
वाक्य- ॐ बुधाय सोमसूताये रोहिणी पुत्राय
वज्रसूर्य देवताय अमूकस्य स्व स्व वांछा
कामनार्थं सूवर्ण दक्षिणा संप्रढोषयाम्यहम् ॥

वृहस्पतिया तच्छ्र वजाचार्ययात वीके
दान वाक्य- ओं वृहस्पतये भूमि अंगार
सूताये चतुर्वेदाय देवानां गुरुपाध्याय अक्षोभ्य
कूल देवताय अमूकस्य स्व स्व वांछा काम-
नार्थं सर्वरोग प्रशान्त्यर्थं पीत वास धूमं दान
तुभ्यं निर्यातयामि इष्ट दक्षणा पीत वासं
प्रतिष्ठार्थं दक्षिणा संपूढोषयाम्यहम् ॥

शुक्रया कय्गु वजाचार्ययात वीके
दान वाक्य- ओं शुक्लाय भृगु सूताय दैत्य
गुरुपाध्याय बैरोचन कूल देवताय अमूकस्य
स्व स्व वांछ कामनार्थं सर्वरोग प्रशान्त्यर्थमिदं
रजत घटीताश्चदानं तुभ्यमहं निर्यातयामि
इदं तुरंग दक्षणां प्रतिष्ठार्थं दक्षणा
संपूढोषयाम्यहम् ॥

शनिश्चरया माये ब्राह्मणयात वीके
दान वाक्य- ॐ शनिश्चराय सूरसूताय छाया

गर्भं संभूताय द्रविड विषय संभूताय अक्षोभ्य
कूल देवताय मम आयुः आरोग्य कामार्थं सर्व
रोग प्रशान्त्यर्थं कृष्णधेनू सर्वाभरणा सहित
रजत घटीत तुभ्यमहं निर्यातयामि इमां
रजत घटीत कृष्णधेनू प्रतिष्ठार्थं दक्षणा
संप्रदोषयाम्यहम् ॥

राहुया म्वा ब्राह्मणयात वीके दान
वाक्य- ओं राहुवे सिंहसूताय अमृत प्रियाय
कूलिशेश्वर देवताय दानपतेरमूकस्थायूरारोग्य
कामनार्थं सर्वरोग प्रशान्त्यर्थं रजत घटीत
खड्ग तुभ्यमहम् निर्यातयामि इदं दक्षणा
खड्ग प्रतिष्ठार्थं दक्षणा संप्रदोषयाम्यहम् ॥

केतुया कवलः ब्राह्मणयात बीके दान
वाक्य- ओं केतुवे आकाश सूताय खड्ग पाश
हस्ताय खड्ग कूल देवताय दानपतेः अमूकस्थ
आयूरारोग्य कामनार्थं सर्वरोगप्रशान्त्यर्थं

रजत घटीत छग दान तुभ्यं निर्यातयामि
इष्ट दक्षणा छग प्रतिष्ठार्थं दक्षणा
संप्रढोषयाम्यहम् ॥

जन्मया आखे दैवज्ञयात बीके दान
वाक्य- ओं जन्म नक्षत्र देवताय वैरोचन
कूल देवताय शय्यासनोपरि स्थिताय दान-
पतेरमूकस्यायूरारोग्य कामनार्थं सर्वरोग
प्रशान्त्यर्थं रजत घटी शय्या दानं तुभ्यमहं
प्रढोषयामि इदं रजत घटीत शय्या संप्रतिष्ठार्थं
संप्रढोषयाम्यहम् ॥

द्यो भवार्ति दान, छेँ बुँ दान,
शय्यादाननं बीके । अले ब्राह्मणयात सा दान
बीके । थनंलि सुद्यला लाक न्दूह्य द्यो प्रतिष्ठा
याये । इहिमन्वातयेतनं भाःगु तक विधिकर्म
याये । रथस अष्ट मङ्गल च्चयागु हासा तये,
थुकिइ अष्ट मङ्गल तये, लुँ वहया काउले, लुँ

वह्या रथ लुँ वह्या सिंहाशन तये शिरापति
 त्वहँनं तये, थ्वया थोने लासा तये,
 रथस माक्व छायेपीके ।

जंक्व याःह्याया जवल्हातिइ वह २१
 लालया चन्द्रविम्ब उवनके देपालहातिइ लुँ
 ३६ लालया सूर्यविम्ब उवनके । कायेमचां
 जंक्वयाःह्य लुकुं छिकाः लःधा, दुदुधा हाय्काः
 तुर्फिं बँ पुयेकाः जो हासां गायेकाः, स्वां सिंह
 ताये ठहय्काः रथ स्वचा चाःहुयेके । नाना
 बाय थाका जंक्व याःह्यासित सुठ्यला लाकं
 फयतुयेके । रथय् पुवा छाये, यलमधि, चताः-
 मधि हले । द्राफव स्वांनं आखेनं लुयेके, सिफं
 लुये । लुँ वह्या द्राफव स्वां सकसियां जंक्व
 याःह्यायात छुके । उष्णीष विजयया धारणी
 व्वंके । काये, म्हाये, अय्, छुयीपिसं अर्घ
 याके । किसली बिये, पाद पूजा याके ।

थनंलि देवतांनिसें इहिमचातयूत
 सकसितं इहि पनासि लःलहाये ओं दिव्य
 वाससे स्वाहा ॥ मात्रानं सिंच तयूके उद्याता
 इत्यादि ॥ शतभेदिका ववस्त्रायेके बाक्य- ओं
 अत्रा षोडश स्वर द्वात्रिंशत व्यञ्जनसूत्र ग्रंथि
 माला बिलंबिने स्कन्धे हूँ फट् स्वाहा ॥ वज्र
 ताचा मतफं त्वये । सि. फं लुये

थनंलि व्याः, सखिखिपः राज ज्योना
 लप्ते सलापातयू तथाव व्यालसं स्वांन छपवः
 तसें भावना- शून्यता करुणाभिन्नं बोधचित्त
 स्वरुपं भावयित्वा नमः स्वहृदयस्थ बीजाक्षरं
 नाना लोकधातु सकरित्वा अकनिष्ठ भुवनं
 गत्वा तस्मादाकृष्य श्रीफलं लीनं चिन्तयेत् ॥
 पाद्यादि । निराञ्जन । ल्वहाग्नि रक्षा । पं.
 ला. घं. स्तुति ।

थन लहातस स्वस्ति चवद्याव ताये
 आखे तसें इहिमचा तयूत उपाध्यानं व्याः

लःलहानाः ज्योना लर्त्ते प्वचिनाः सखिखिपःतं
 ल्हातय् चिनाबिये गाथा- इयं ताथागता मूद्रा
 ज्ञानालोक प्रभाकरी गृह्तिवा पाणिनापाणि
 बुद्धकृत्य प्रवर्तिता येन ज्ञानेन सत्येन
 प्रज्ञोपायमण्डलं कामात्वं परिपूरयेत् ॥ अलिनं
 त्वये- ओं सर्वबुद्ध चूडामणि महावज्रोष्णीष
 बन्ध तिष्ठ २ हूँ फट् स्वाहा ॥ ओं वज्रहास
 समयमनूश्मरे स्वाहा ॥

थनंलि लःधाः तसेँ तुर्फिँ वँ पुयेका
 वसा लाकाः छय् छुयीपिसं रथ सायेके ।

न्हूह्य धो, इहिमच्चात नापंतुं
 मण्डलाग्निकूरुडल स्वचा चाःहुयेके- स्वस्ति
 वाक्य पदल्पे । इहिमच्चातयेत पाणि ग्रहणया
 वाक्य पदपे । नेचृत्य कोनस, इसान कोनस
 स्वस्ति च्चयाव थथु कोनस निराञ्जन वजूताचां
 त्वये, मतफं त्वये, अलिनं त्वये, जोहासां

गाले, सगोन बिये, सिफं लुये हुता दुये
 योजाग्ने याये । अनं थः थःगु थासय् तुं
 फयतुके ।

इहिमचातयत्त पाणिग्रहण याये कन्या
 संकल्प याना व्छये । अग्निक्रिया याये । न्हूह्य
 यो प्रतिष्ठा याये । थन प्रतिष्ठा यानाह्य
 योयात थिहाले । आहुति बिये, देश बलि
 बिये । अंपग्वः ५ ग्वलनं पञ्चधारा झाइयेके,
 पूजा । चाक पूजा । सकसितं कथःथे फयतुका
 पशूका ज्वनके । शिष्याधिवासन शिष्याहुति
 थकालिनं मण्डल च्वके, कौग तिनके ।
 पूर्णाहुति याये । आशिर्वाद बिये मण्डल
 ध्वय्के । सगुन तय्के, सिंह तिके, दक्षिणा
 बीके । बाधां छुयेके । गुरुयात सिरपाः—
 ग्वकुल, चुल्या, वेताबिं, दोसाल, लं छजु
 बीके । सकसितं बाधा छुये । सिंह तिके

श्वपेका काये, निसला बिये । जंक्व थाःह्यात
 धाय्भू चिपं थियेके । शेषाहुति याये ।
 विशर्जन । सकृतां वज्ं श्वय्के कलशाभिषेक ।

थन रजोमण्डलश् सतिमण्डलोपसंहार
 याये । किरण लिये, माक्वसित कलशलःह्याये,
 देश बलि व्छये । थन देश जात्रा मर्जातर्थे
 नानावाद्य थाके मङ्गल गीत याके । सिंदूर
 जात्रा याये, स्थवार आचार्य जुलसा छत्रं
 कुयेके । दिग्पाल छत्र व्वयेकाः महोत्सव पासै
 रथ यात्रा देशस चाःहुयेकाः लिथ्यनकाः
 पिखालखुस मालको ज्वलनं कलश दुवाल्याः
 तसै लसकुस ज्वलनं सगुण दय्कं लँ स्वयाव
 दुकाये फँ वाधां छुये । थनंलि दुत हषाः
 थकार्लि पूर्णाकलश ज्वनकं थौ सगं छुये ।
 मामकि कौमारी पूजा । श्वःसगँ छुये, गनचक्र,
 शेष बलि, उथभराण्डो ॥

जंक्व क्रिया क्वचाल